

Caprolactam Chemicals Limited

CIN No. L24110MH1988PLC049683
 Registered Office: B-31, MIDC, Mahad, Dist Raigad, Maharashtra-402302.
 E-mail: caprolactam@gmail.com; website: www.caprolactam.co.in

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Year Ended March, 2024

Sr. No.	Particulars	Rs. in Lacs		
		31-03-2024 Audited	31-03-2024 Audited	31-03-2023 Audited
1	Total Income from Operations (net)	146.54	713.71	985.67
2	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	11.74	19.74	254.85
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Extra Ordinary Items)	12.54	20.54	254.36
4	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- per share)	460.00	460.00	460.00
5	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	-	94.71	74.17
6	Earnings Per Share (before and after extra Ordinary Items) (of 10/- each)	0.26	0.43	5.54
	Basic	0.26	0.43	5.54
	Diluted	0.26	0.43	5.54

Note-
 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on www.bseindia.com and on the Company website www.caprolactam.co.in
 2) The above audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on May 27, 2024. The Statutory Auditors have carried out Limited Review of the above Financial Results.

Place : Mahad
 Date : May 27, 2024

Sd/-
Z S Bhanushali
 (Chairman Cum M.D.) (DIN No. 00663374)

DIGJAM LIMITED

(CIN : L17123GJ2015PLC083569)
 Aerodrome Road,
 Jannagar - 361 006, India.
 e-mail : cosec@digjam.co.in

**Extracts of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024**

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		See Note 2	Unaudited	See Note 2	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	310	631	734	2,413	3,410
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or extraordinary items)	(877)	(182)	(236)	(1,838)	(830)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	(245)	(182)	(236)	(1,206)	(1,220)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	(245)	(182)	(236)	(1,206)	(1,220)
5.	Total Comprehensive Profit / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(286)	(173)	(227)	(1,222)	(1,187)
6.	Equity Share Capital	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7.	Other equity excluding revaluation reserve	-	-	-	(416)	807
8.	Earnings per Share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations) : Basic & Diluted	(1.23)	(0.91)	(1.18)	(6.03)	(6.10)

Notes :
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.digjam.co.in
 2. Figures for the quarters ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are the balancing figures between consolidated audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial years in accordance with applicable Ind AS.

For and on Behalf of the Board,
 For DIGJAM Limited
Hardik B. Patel
 Chairman & Whole-Time Director
 DIN : 00590663

Date : May 27, 2024
 Place : Mumbai

PRABHANS INDUSTRIES LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS SEA GOLD INFRASTRUCTURE LIMITED)
 CIN: L70200TG1993PLC161389
 Regd. Office: Plot No.270E/A, MCH No.985 Road No.10, Jubilee Hills,
 Hyderabad, Telangana - 500033, India
 Corporate Office: House No. 248, Karta Ram Gali Ghass Mandi, Chaura Bazar
 Ludhiana, Punjab - 141008, India
 Phone No. +91-40-23544558, Fax: +91-40-23544558
 Website: www.prabhansindia.com, Email: seagoldacqa@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year ended 31.03.2024 (Audited)
		31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total Income from Operations	1,573.84	1,848.48	5,260.97	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	77.67	63.69	206.94	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.67	63.69	206.94	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40.27	23.14	135.93	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	40.27	23.14	135.93	
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- each)	624.82	624.82	624.82	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic, 2. Diluted:	0.64 0.64	0.37 0.37	2.18 2.18	

Notes:
 1. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th May, 2024.
 2. The above results for the quarter and year ended on 31st March, 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
 3. The Company has a single reportable segment for the purpose of Ind AS-108.

For and on behalf of
 Prabhans Industries Limited
 (Formerly known as Sea Gold Infrastructure Limited)
 Sd/-
Satnam Singh
 Managing Director & CFO
 DIN: 09526002

Date: 28.05.2024
 Place: Ludhiana

SAYAJI HOTELS LIMITED

CIN: L51100TN1982PLC124332

Regd. Office : F1, C3 Sivavel Apartment, 2, Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai-600 117 (Tamil Nadu)
 Phone : 044-29871174, Email: cs@sajajigroup.com, Website: www.sajajihotels.com

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2024

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)
1.	Total income from operation (net)	3,562.41	4,387.76	11,846.28	14,173.69	3,566.51	4,393.58	11,662.40	11,813.89
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	952.19	1,387.55	2,306.05	4,202.09	955.73	1,395.87	2,320.07	1,828.45
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	952.19	1,387.55	2,306.05	4,202.09	955.73	1,395.87	2,320.07	1,828.45
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	830.58	1,103.07	1,821.41	5,399.84	801.40	686.17	1,433.66	3,509.49
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	813.59	1,096.95	1,789.84	5,375.86	743.89	661.85	1,375.36	3,463.27
6.	Equity Share Capital	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: Diluted:	4.60 4.60	6.16 6.16	10.40 10.40	30.26 30.26	4.57 4.57	3.24 3.24	8.18 8.18	18.66 18.66

Note: a) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website at (www.bseindia.com) and Company's website at (www.sajajihotels.com).
 b) The above results for the quarter and year ended on 31st March, 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
 c) The Company has a single reportable segment for the purpose of Ind AS-108.

By the Order of the Board
 For Sayaji Hotels Limited
 Sd/-
Abhay Chintaman Chaudhari
 Chairman

Place : Chennai
 Date : 28.05.2024

BLS International Services Limited

CIN: L51909DL1983PLC016907
 Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate,
 Mathura Road, New Delhi-110044
 Tel. No.: 011-45795002, Email: compliance@blsinternational.net,
 Website: www.blsinternational.com

This is in reference to circulation of "Unsolicited SMS" with reference to equity shares of the Company to promote the stock of the Company through Social Media and SMS Campaign indicating target prices, by some unregistered or unauthorized person/ entity/group.

We would like to categorically clarify that the company, its promoter, promoter group, directors and KMPs do not have any role in such campaign of promotion of stock price and stock tips through circulation of unsolicited messages by unknown person/ entity/ group and social media channels. The company has lodged a police complaint regarding the same.

All shareholders and investors are hereby advised/ cautioned not to rely on such unsolicited SMSs circulated by unregistered/unauthorized person/ entity/ group. We also advise shareholders and investors to exercise appropriate due diligence before trading in shares of the Company and to take informed investment decisions without being influenced by such unsolicited messages. If any investor deals in the shares of the company on the basis of the messages and/or incur losses, the Company and its promoter/ promoter group/ director/ any officer will not be responsible or liable for the same.

The company has been making all requisite disclosures, from time to time, through our quarterly financial results, investor presentations, press release, earnings call and the same are uploaded on the website of the stock exchanges i.e., BSE, NSE and MSE website viz. www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.mse.in and are also made available on the website of the company at www.blsinternational.com.

For any information or clarification from company, shareholders and investors can contact with the company at compliance@blsinternational.net

For BLS International Services Limited
 Sd/-
Dharak Mehta
 Company Secretary & Compliance Officer
 Date : 28.05.2024
 Place : New Delhi

TECH mahindra**TECH MAHINDRA LIMITED**

Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001.
 Tel: + 91 20 4225 0000 • Website: www.techmahindra.com
 • Email: investor.relations@techmahindra.com
 • CIN : L64200MH1986PLC041370

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the company)
Sub: Transfer of Equity shares and unclaimed / unpaid dividends to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Refund) Rules, 2016, which have come into effect from 7th September 2016, read with the amendments and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time (collectively "the Rules")

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund constituted by the Government of India under Section 125 of the Companies Act, 2013.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules (at their latest available addresses with the Company) for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of such shareholders, their unclaimed / unpaid dividends and shares due for transfer to IEPF on its website at www.techmahindra.com. Shareholders are requested to refer to the web-link : <https://insights.techmahindra.com/investors/iepf-unclaimed-dividend-and-corresponding-shares-data-fy-2016-17.pdf> to verify the details of unclaimed / unpaid dividends and shares and the shares liable to be transferred to IEPF.

Shareholders may note that both unclaimed / unpaid dividends and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF authorities, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF authorities as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled. This shall be deemed as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF authorities pursuant to the rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 23, 2024 the Company shall, pursuant to the requirements set out in the Rules, transfer the shares & the unclaimed / unpaid dividends to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter or the Rules they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Block No. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune-411001. Tel No. : 020-26161629, email : pune@linkintime.co.in

For TECH MAHINDRA LIMITED
 Sd/-
Anil Khatri
 Company Secretary
 Place : Pune
 Date : May 28, 2024

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office : 28, Najafgarh Road, Mofl Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015.
 Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax : (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com,
 Branch Office : O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
		31st March, 2024	31st December, 2023	31st March, 2023	31st March 2024	31st March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	812.00	1,168.74	670.46	6,575.11	11,207.12
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	755.57	1,116.57	575.87	6,334.05	10,911.63
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	755.57	1,116.57	575.87	6,334.05	10,911.63
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	507.43	843.40	392.44	4,643.91	8,094.64
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,07,948.73	83,612.91	(3,292.30)	4,39,803.15	104.45
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62
7	Other Equity	-	-	-	12,19,929.97	7,80,126.82
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	9.88 9.88	16.42 16.42	7.64 7.64	90.42 90.42	157.60 157.60

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
		31st March, 2024	31st December, 2023	31st March, 2023	31st March 2024	31st March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	1,091.59	2,566.15	957.57	8,839.96	13,350.36
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	475.84	2,037.02	796.14	7,443.45	12,435.19
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	477.23	2,067.99	796.54	7,552.84	12,434.35
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	175.16	1,728.69	557.03	5,628.51	9,258.26
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,13,431.83	89,806.20	(521.05)	4,62,352.50	5,874.99
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62
7	Other Equity	-	-	-	12,59,899.92	7,98,836.74
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	3.41 3.41	33.66 33.66	10.85 10.85	109.59 109.59	180.26 180.26

Notes :
 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/yearly financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/ www.nseindia.com).
 2. The financial result of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2024 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 28th May, 2024. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on these financial results.
 3. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board of Directors
 For Nalwa Sons Investments Limited
 Mahender Kumar Goel
 Whole Time Director, DIN : 00041866

Place : Delhi
 Date : 28th May, 2024

SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED

CIN: L74110DL1984PLC018467
 Regd. Off.: 109A (First Floor), Surya Kiran Building, 19 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
 website: www.sabrimala.co.in, Email: cs@sabrimala.co.in, Ph: 011-41514958

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2024

S. No.	Particular	Standalone			Consolidated		
		Current Quarter ended 31.03.2024	Year to Date Figures/ Previous Year ending 31.03.2024	Corresponding Quarter ended in previous year 31.03.2023	Current Quarter ended 31.03.2024	Year to Date Figures/ Previous Year ending 31.03.2024	Corresponding Quarter ended in previous year 31.03.2023
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	18.39	635.42	120.20	18.39	635.42	120.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.60	48.28	-11.01	6.00	48.28	-11.01
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.60	48.28	-11.01	6.00	48.28	

Caprolactam Chemicals Limited

CIN No. L24110MH1988PLC049683
Registered Office: B-31, MIDC, Mahad, Dist Raigad, Maharashtra-402302.
E-mail: caprolactam@gmail.com; website: www.caprolactam.co.in

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Year Ended March, 2024

Rs. in Lacs

Sr. No.	Particulars	Out. Ended	Year Ended	Year Ended
		31-03-2024	31-03-2024	31-03-2023
		Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	146.54	713.71	985.67
2	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	11.74	19.74	254.85
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Extra Ordinary Items)	12.54	20.54	254.36
4	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- per share)	460.00	460.00	460.00
5	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of Previous Year)	-	94.71	74.17
6	Earnings Per Share (before and after extra Ordinary Items) (of 10/- each)	0.26	0.43	5.54
	Basic	0.26	0.43	5.54
	Diluted	0.26	0.43	5.54

Note-
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on www.bseindia.com and on the Company website www.caprolactam.co.in
2) The above audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on May 27, 2024. The Statutory Auditors have carried out Limited Review of the above Financial Results.

Place : Mahad
Date : May 27, 2024

Sd/-
Z S Bhanushali
(Chairman Cum M.D.)(DIN No. 00663374)

DIGJAM LIMITED

CIN : L17123GJ2015PLC083569

Aerodrome Road,
Jamnagar - 361 006, India.
e-mail : cosec@digjam.co.in

**Extracts of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024**

(₹ in lakhs, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		See Note 2	Unaudited	See Note 2	Audited
1.	Total Income from Operations	310	631	734	2,413
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or extraordinary items)	(877)	(182)	(236)	(1,838)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(245)	(182)	(236)	(1,206)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	(245)	(182)	(236)	(1,206)
5.	Total Comprehensive Profit / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(286)	(173)	(227)	(1,222)
6.	Equity Share Capital	2,000	2,000	2,000	2,000
7.	Other equity excluding revaluation reserve	-	-	-	(416)
8.	Earnings per Share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations) : Basic & Diluted	(1.23)	(0.91)	(1.18)	(6.03)

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.digjam.co.in
2. Figures for the quarters ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are the balancing figures between consolidated audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial years in accordance with applicable Ind AS.

For and on Behalf of the Board,
For DIGJAM Limited
Hardik B. Patel
Chairman & Whole-Time Director
DIN : 00590663

Date : May 27, 2024
Place : Mumbai**PRABHANS INDUSTRIES LIMITED**

(FORMERLY KNOWN AS SEA GOLD INFRASTRUCTURE LIMITED)

CIN: L70200TG1993PLC016389

Regd. Office: Plot No.270E/A, MCH No.985 Road No.10, Jubilee Hills,
Hyderabad, Telangana - 500033, India
Corporate Office: House No. 248, Karta Ram Gali Ghass Mandi, Chaura Bazar
Ludhiana, Punjab - 141008, India

Phone No. +91-40-23544558, Fax: +91-40-23544558

Website: www.prabhansindia.com, Email: seagoldacqa@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended
		31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,573.84	1,848.48	5,260.97
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	77.67	63.69	206.94
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.67	63.69	206.94
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40.27	23.14	135.93
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	40.27	23.14	135.93
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs 10/- each)	624.82	624.82	624.82
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic; 2. Diluted:	0.64 0.64	0.37 0.37	2.18 2.18

Notes:
1. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th May, 2024.
2. The above results for the quarter and year ended on 31st March, 2024 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
3. The Company has a single reportable segment for the purpose of Ind AS-108.

For and on behalf of
Prabhans Industries Limited
(Formerly known as Sea Gold Infrastructure Limited)

Sd/-
Satnam Singh
Managing Director & CFO
DIN: 09526002

Date: 28.05.2024
Place: Ludhiana**SAYAJI HOTELS LIMITED**

CIN: L51100TN1982PLC124332

Regd. Office : F1, C3 Sivavel Apartment, 2, Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai-600 117 (Tamil Nadu)

Phone : 044-29871174, Email: cs@sajajigroup.com, Website: www.sajajihotels.com

Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2024

(₹ in Lakhs except figures of EPS)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Restated)
1.	Total income from operation (net)	3,562.41	4,387.76	11,846.28	14,173.69	3,566.51	4,393.58	11,862.40	11,813.89
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	952.19	1,387.55	2,306.05	4,202.09	955.73	1,395.87	2,320.07	1,828.45
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	952.19	1,387.55	2,306.05	4,202.09	955.73	1,395.87	2,320.07	1,828.45
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	830.58	1,103.07	1,821.41	5,399.84	801.40	686.17	1,433.66	3,509.49
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	813.59	1,096.95	1,789.84	5,375.86	743.89	661.85	1,375.36	3,463.27
6.	Equity Share Capital	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80	1,751.80
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic; Diluted:	4.60 4.60	6.16 6.16	10.40 10.40	30.26 30.26	4.57 4.57	3.24 3.24	8.18 8.18	18.66 18.66

Note: a) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website at (www.bseindia.com) and Company's website at (www.sajajihotels.com).

By the Order of the Board
For Sayaji Hotels Limited
Sd/-
Abhyas Chintanam Chaudhari
Chairman

Place : Chennai
Date : 28.05.2024**BLS International Services Limited**

CIN: L51909DL1983PLC016907

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate,

Mathura Road, New Delhi-110044

Tel. No.: 011-45795002, Email: compliance@blsinternational.net,

Website: www.blsinternational.com

This is in reference to circulation of "Unsolicited SMSs" with reference to equity shares of the Company to promote the stock of the Company through Social Media and SMS Campaign indicating target prices, by some unregistered or unauthorized person/ entity/group.

We would like to categorically clarify that the company, its promoter, promoter group, directors and KMPs do not have any role in such campaign of promotion of stock price and stock tips through circulation of unsolicited messages by unknown person/ entity/ group and social media channels. The company has lodged a police complaint regarding the same.

All shareholders and investors are hereby advised/ cautioned not to rely on such unsolicited SMSs circulated by unregistered/unauthorized person/ entity/ group. We also advise shareholders and investors to exercise appropriate due diligence before trading in shares of the Company and to take informed investment decisions without being influenced by such unsolicited messages. If any investor deals in the shares of the company on the basis of the messages and/or incur losses, the Company and its promoter/ promoter group/ director/ any officer will not be responsible or liable for the same.

The company has been making all requisite disclosures, from time to time, through our quarterly financial results, investor presentations, press release, earnings call and the same are uploaded on the website of the stock exchanges i.e., BSE, NSE and MSE website viz. www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.mse.in and are also made available on the website of the company at www.blsinternational.com.

For any information or clarification from company, shareholders and investors can contact with the company at compliance@blsinternational.net

For BLS International Services Limited
Sd/-
Dharak Mehta
Company Secretary & Compliance Officer
Date : 28.05.2024
Place : New Delhi

TECH mahindra**TECH MAHINDRA LIMITED**

Registered Office: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai - 400 001.

Tel: + 91 20 4225 0000 • Website: www.techmahindra.com

• Email: investor.relations@techmahindra.com

• CIN : L64200MH1986PLC041370

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the company)
Sub: Transfer of Equity shares and unclaimed / unpaid dividends to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Refund) Rules, 2016, which have come into effect from 7th September 2016, read with the amendments and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time (collectively "the Rules")

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund constituted by the Government of India under Section 125 of the Companies Act, 2013.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules (at their latest available addresses with the Company) for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of such shareholders, their unclaimed / unpaid dividends and shares due for transfer to IEPF on its website at www.techmahindra.com. Shareholders are requested to refer to the web-link : <https://insights.techmahindra.com/investors/iepf-unclaimed-dividend-and-corresponding-shares-data-fy-2016-17.pdf> to verify the details of unclaimed / unpaid dividends and shares and the shares liable to be transferred to IEPF.

Shareholders may note that both unclaimed / unpaid dividends and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholders from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF authorities, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF authorities as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled. This shall be deemed as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF authorities pursuant to the rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 23, 2024 the Company shall, pursuant to the requirements set out in the Rules, transfer the shares & the unclaimed / unpaid dividends to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter or the Rules they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., Block No. 202, 2nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune-411001. Tel No. : 020-26161629, email : pune@linkintime.co.in

For TECH MAHINDRA LIMITED

Sd/-

Place : Pune

Date : May 28, 2024

Anil Khatri

Company Secretary

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office : 28, Najafgarh Road, Mofl Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015.
Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax : (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com,
Branch Office : O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in lakhs, except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
		31st March, 2024	31st December, 2023	31st March, 2023	31st March 2024	31st March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	812.00	1,168.74	670.46	6,575.11	11,207.12
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	755.57	1,116.57	575.87	6,334.05	10,911.63
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	755.57	1,116.57	575.87	6,334.05	10,911.63
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	507.43	843.40	392.44	4,643.91	8,094.64
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,07,948.73	83,612.91	(3,292.30)	4,39,803.15	104.45
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62
7	Other Equity	-	-	-	12,19,929.97	7,80,126.82
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic; 2. Diluted:	9.88 9.88	16.42 16.42	7.64 7.64	90.42 90.42	157.60 157.60

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in lakhs, except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
		31st March, 2024	31st December, 2023	31st March, 2023	31st March 2024	31st March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	1,091.59	2,566.15	957.57	8,839.96	13,350.36
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	475.84	2,037.02	796.14	7,443.45	12,435.19
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	477.23	2,067.99	796.54	7,552.84	12,434.35
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	175.16	1,728.89	557.03	5,628.51	9,258.26
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,13,431.83	89,806.20	(521.05)	4,62,352.50	5,874.99
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62
7	Other Equity	-	-	-	12,59,989.92	7,98,836.74
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic; 2. Diluted:	3.41 3.41	33.66 33.66	10.85 10.85	109.59 109.59	180.26 180.26

Notes:-
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/yearly financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/ www.nseindia.com).
2. The financial result of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2024 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 28th May, 2024. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on these financial results.
3. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board of Directors

For Nalwa Sons Investments Limited

Mahender Kumar Goel

Whole Time Director, DIN : 00041866

Place : Delhi
Date : 28th May, 2024**SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED**

CIN: L74110DL1984PLC018467

Regd. Off.: 109A (First Floor), Surya Kiran Building, 19 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
website: www.sabrimala.co.in, Email: cs@sabrimala.co.in, Ph: 011-41514958

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2024

(In Lacs)

S. No.	Particular	Standalone		
--------	------------	------------	--	--

...continued from previous page.

ASBA * Simple, Safe, Smart way of Application!!!

*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account.



UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non Institutional Investor applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs.

ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Bidders in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Bidders with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

PANTOMATH Capital Advisors (P) Ltd. Pantomath Capital Advisors Private Limited. Pantomath Nucleus House, Saki Vihar Road, Andheri East, Mumbai - 400072 Maharashtra, India

REGISTRAR TO THE OFFER

KFINTECH KFin Technologies Limited. Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032, Telangana, India

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Nikhil Goswami KRONOX LAB SCIENCES LIMITED. Block No. 353, Village Ekabara, Padra, Vadodara 391 440, Gujarat, India

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP before applying in the Offer.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus is available on the website of the Company, the BRLM and the Registrar to the offer at www.kronoxlabsciences.com, www.pantomathgroup.com and www.kfintech.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, KRONOX LAB SCIENCES LIMITED. Telephone: + 91-80 8895 7200; BRLM: Pantomath Capital Advisors Private Limited, Tel: 1800 889 8711 and Syndicate Members: Pantagon Stock Brokers Private Limited

all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Axis Capital, IIFL Securities Limited, JM Financial Services Limited, LKP Securities Ltd, RR Equity Brokers Private Limited, Sharekhan Limited, SMC Global Securities Limited and Yes Securities Limited.

ESCROW COLLECTION BANK, REFUND BANK AND SPONSOR BANK: Axis Bank Limited.

PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK AND SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For KRONOX LAB SCIENCES LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Nikhil Goswami

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Vadodara, Gujarat

Date: May 28, 2024

KRONOX LAB SCIENCES LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated May 28, 2024 with the RoC.

जना स्माल फाइनेंस बैंक (अनुसूचित जाति/जनजाति बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : द फेडरल, भूल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डेवलप, कोमंगला इनर रिंग रोड, ईडीएल बिजनेस पार्क से आगे, चल्हापट्टा, बेंगलूरु-560071

पंजीकृत कार्यालय : 16/12, 2रा तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, कलेज बाग, दिल्ली-110005

संरक्षित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

जैसा कि आप नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ऋण ग्रहण किया था। आप सभी के द्वारा की गयी चुक के परिणामस्वरूप आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादन अवस्था में लाया गया है, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रतिकूल लेनदार होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कॉलस 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी, किन्तु उनमें से कुछ के पास विभिन्न कारणों से सूचनाएँ सर्व नहीं हो पायीं।

Table with 5 columns: क्र. कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के नाम, ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि, प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण, एनपीए की तिथि एवं माँग सूचना की तिथि, तिथि तक बकाया राशि रु. में।

पदाहारा कॉलस सं. 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध कॉलस सं. 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि कॉलस सं. 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है।

तिथि : 29.05.2024 स्थान : हरियाणा एवं चंडीगढ़

ह./- अधिकृत प्राधिकारक, कृत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

सौआईएन: L74110DL1984PLC018467 रजि. ऑफ.: 109ए (प्रथम तल), सूर्य किरण बिल्डिंग, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट: www.sabrimala.co.in, ईमेल: cs@sabrimala.co.in, फोन: 011-41514958

31-03-2024 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

Table with 7 columns: क्र. सं., विवरण, वर्तमान तिमाही समाप्ति 31-03-2024, वर्ष से अब तक के ऑफ़ेड/पिछला वर्ष समाप्ति 31-03-2024, संशोधित तिमाही समाप्ति 31-03-2023, वर्तमान तिमाही समाप्ति 31-03-2024, वर्ष से अब तक के ऑफ़ेड/पिछला वर्ष समाप्ति 31-03-2024, संशोधित तिमाही समाप्ति 31-03-2023.

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रावधानों का आचरण) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर वित्तीय/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है।

2. इस विवरण की लेखापरीक्षा संशोधित द्वारा समीक्षा की गई है और 27.05.2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उम्मी और से सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा

सुरेश कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक

SRM ENERGY LIMITED

Regd. Office : 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057 CIN: L17100DL1985PLC303047 Tel No. 011-41403205 Website: www.srmenergy.in email : info@srmenergy.in

Extract of Standalone and Consolidated Audited Results for the Quarter and Year ended 31/03/2024 (₹ in lac)

Table with 12 columns: SI No., Particulars, Quarter ending (Audited) 31/03/2024, Quarter ending (Unaudited) 31/11/2023, Quarter ending (Audited) 31/03/2024, Year ending (Audited) 31/03/2024, Year ending (Audited) 31/03/2023, Quarter ending (Audited) 31/03/2024, Quarter ending (Unaudited) 31/03/2023, Quarter ending (Audited) 31/03/2024, Year ending (Audited) 31/03/2024, Year ending (Audited) 31/03/2023.

NOTES: a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

b) The above Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2024.

For and On behalf of Board Sd/- Sharad Rastogi Whole Time Director Din : 09828931

Place: New Delhi Date: May 28, 2024

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड

CIN : L74899DL1984PLC019218 GSTIN : 07AAACIO149R1ZB पंजीकृत कार्यालय : एमजीएफ हाउस, 4/17-बी, आरफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

फोन : 41520070 फेक्स : 41503479, वेबसाइट : www.indialease.com, ईमेल : info@indialease.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

Table with 6 columns: क्र. सं., विवरण, 31.03.2024 (अकेक्षित), 31.12.2023 (अनअकेक्षित), 31.03.2023 (अकेक्षित), 31.03.2024 (अकेक्षित), 31.03.2023 (अकेक्षित).

टिप्पणियाँ: उपरोक्त सेबी (एक्सचेंज) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किए गए अकेक्षित स्टैंडअलोन तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों में विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है।

स्थान: नई दिल्ली तिनांक: 28 मई, 2024

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office : 28, Najafgarh Road, Mot Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax : (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com

Branch Office : O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (₹s. In lakhs, except per share data)

Table with 6 columns: Sr. No., Particulars, For the quarter ended 31st March, 2024 (Audited), For the quarter ended 31st December, 2023 (Unaudited), 31st March, 2023 (Audited), For the year ended 31st March 2024 (Audited), 31st March 2023 (Audited).

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 (₹s. In lakhs, except per share data)

Table with 6 columns: Sr. No., Particulars, For the quarter ended 31st March, 2024 (Audited), For the quarter ended 31st December, 2023 (Unaudited), 31st March, 2023 (Audited), For the year ended 31st March 2024 (Audited), 31st March 2023 (Audited).

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2. The financial result of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2024 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 28th May, 2024.

3. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Mahender Kumar Goel Whole Time Director, DIN : 00041866

Place : Delhi Date : 28th May, 2024

THE BUSINESS DAILY. FOR DAILY BUSINESS. FINANCIAL EXPRESS. READ TO LEAD.

...continued from previous page.

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application!!!

*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA. Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.



UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non Institutional Investor applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. Retail Individual Investors and Non-Institutional Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021, CBDT Circular No. 7 of 2022 dated March 30, 2022 read with the press release dated March 28, 2023.

ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Bidders in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Bidders with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in the Bid Cum Application Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 335 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. The Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can be downloaded from the websites of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with BSE, the "Stock Exchanges" and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecogndedFp=yes&intmid=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecogndedFp=yes&intmid=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Axis Bank and ICICI Bank Limited have been appointed as the Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the Book Running Lead Manager ("BRLM") on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail id: ipo.upi@npci.org.in.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

PANTOMATH CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
Pantomath Nucleus House, Saki Vihar Road, Andheri East, Mumbai - 400072 Maharashtra, India
Tel: 1800 889 8711, E-mail: kronox.ipi@pantomathgroup.com
Website: www.pantomathgroup.com, Investor grievance e-mail: investors@pantomathgroup.com
Contact Person: Kaushal Patwa, SEBI Registration No.: INM000012110

REGISTRAR TO THE OFFER

KFINTECH
KFin Technologies Limited
Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032, Telangana, India
Telephone: +91 40 6716 2222/1800 309 4001, Email: klsi.ipi@kfinetech.com
Investor grievance email: einward_ris@kfinetech.com, Website: www.kfinetech.com
Contact Person: M Murali Krishna, SEBI Registration No.: INR000002221

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Nikhil Goswami
KRONOX LAB SCIENCES LIMITED
Block No. 353, Village Ekalbara, Padra, Vadodra 391 440, Gujarat, India
Tel: +91 26 622 44 077, E-mail: cs@kronoxlabsciences.com, Website: www.kronoxlabsciences.com
Bidders may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and is available on the websites of the BRLM, Pantomath Capital Advisors Private Limited at www.pantomathgroup.com, the website of the Company, Kronox Lab Sciences Limited at www.kronoxlabsciences.com and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and for NSE Limited at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus is available on the website of the Company, the BRLM and the Registrar to the offer at www.kronoxlabsciences.com, www.pantomathgroup.com and www.kfinetech.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, KRONOX LAB SCIENCES LIMITED. Telephone: +91-80 6895 7200; BRLM: Pantomath Capital Advisors Private Limited, Tel: 1800 889 8711 and Syndicate Members: Pentagon Stock Brokers Private Limited (formerly known as Pantomath Stock Brokers Private Limited), Tel: +91 22 42577000 and Asit C Mehta Investment Intermediates Limited, Telephone: 022-2858 4545 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and at

all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.
SUB-SYNDICATE MEMBERS: Axis Capital, IIFL Securities Limited, JM Financial Services Limited, LKP Securities Ltd, RR Equity Brokers Private Limited, Sharekhan Limited, SMC Global Securities Limited and Yes Securities Limited.
ESCROW COLLECTION BANK, REFUND BANK AND SPONSOR BANK: Axis Bank Limited.
PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK AND SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.
UPI: UPI Bidders can also bid through UPI Mechanism.
All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

Place: Vadodra, Gujarat
Date: May 28, 2024

For KRONOX LAB SCIENCES LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Nikhil Goswami
Company Secretary & Compliance Officer

KRONOX LAB SCIENCES LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated May 28, 2024 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the BRLM i.e., Pantomath Capital Advisors Private Limited at www.pantomathgroup.com, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the Company at www.kronoxlabsciences.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but can only rely on the information included in the Red Herring Prospectus. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) under Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

CONCEPT

जना स्माल फाइनेंस बैंक (अनुसूचित जाति/वर्ग बैंक)
पंजीकृत कार्यालय : ड फरवरी, भुल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2, ऑफ रोड, कोममला इन्डिया गेट, इन्डिया
बिजनेस पार्क से आगे, चण्डीगढ़, बेल्लूर-560071
श्रेणीय शाखा कार्यालय : 16/12, 2रा तल, इन्दूर, आर्य समाज रोड, कोलाबा, दिल्ली-110005

सर्वसौखी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना
जिस कि आप नीचे वर्णित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अलग-अलग समितियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया था। आप सभी के द्वारा की गयी ऋण के परामर्शपूर्ण आदेशों को ध्यान रखते हुए जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा प्रेषित किये गये हैं, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रेषित लेनदार होने के तहत प्रावधानों के अन्तर्गत (प्रत्येक) विषय, 2002 के विषय 2 के प्रावधानों के अधिनियम को धारा 13(2) के तहत उक्त शर्तियों के अन्तर्गत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कर्जदार 2 में उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचना की जिसे से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि तथा उक्त पर भावी ब्याज का पुनर्गुणन करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी, किन्तु उनमें से कुछ के पास विभिन्न कारणों से सूचनाएं संकट नहीं हो पायीं।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की तिथि एवं माँग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु. में
1	1) मेसर्स राधिका कम्प्यूटेशन, इसके मालिक श्री हर्ष कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री हर्ष कुमार, पुत्र प्रदीप कुमार (कर्जदार), 3) श्री प्रदीप कुमार, पुत्र शंकर (गांटर)	ऋण खाता सं. 45278640000101 45279660000136 तथा 45279660000251 ऋण राशि : रु. 14,88,328/-	प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण: भाग-'ए' - बंधक चल संपत्तियां: कंपनी यानी मेसर्स राधिका कम्प्यूटेशन, पता फर्स्ट फ्लोर, राधिका कम्प्यूटेशन, सामने बसती बाग, साई रोड, बदी सोलन हिमाचल प्रदेश-172025 के व्यावसायिक परिसर में खाते की किताबों में सभी कच्चे माल और स्टॉक और प्राप्य तथा बचत ऋण पर पहला शुल्क। भाग-'बी' - बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरण: मकान रकबा 150 वर्ग गज, 0-3 बिस्वा सम्मिलित खसरा नंबर 111 खाता नंबर 3/7 तदानी 2-9 भाग 3/49 भाग बकदर 0-3 बिस्वा जमावदी 2015-2016 के अनुसार ग्राम टाणारा, कंगन काकाका पंचकुला में स्थित, स्वामित्व श्री प्रदीप कुमार, पुत्र शंकर दास। इसकी सोमा इस प्रकार है: पूर्व: गली, पश्चिम: अन्य का घर, दक्षिण: अन्य का घर, उत्तर: शालाट।	एनपीए की तिथि : 03.05.2024 माँग सूचना की तिथि : 24.05.2024	रु. 10,37,109/- (रुपये दस लाख सौतीस हजार एक सौ नौ मात्र) तिथि 20.05.2024 तक
2	1) मेसर्स जोकार्टा युनिसेक्स सैलून, इसके मालिक श्री नरेश कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री नरेश कुमार, पुत्र मदन लाल (कर्जदार), 3) श्रीमती अनु अर्पणा, पत्नी नरेश कुमार (गांटर)	ऋण खाता सं. 45278640000090 45279660000191 45279660000021 तथा 45279660000392 ऋण राशि : रु. 32,17,352/-	अनुसूची - II: प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण - भाग-'ए' - बंधक चल संपत्ति: कंपनी यानी मेसर्स जोकार्टा युनिसेक्स सैलून, पता के व्यावसायिक परिसर के खाते की किताबों तथा प्राप्य और बचत ऋणों में सभी कच्चे माल और स्टॉक पर पहला शुल्क। भाग-'बी' - बंधक अचल संपत्ति - अनुसूची संपत्ति - संपत्ति विवरण: खसरा संख्या 134/2/1 (0-16), 135/2(6-7), 137/3(3-2), 138/2/2(2 (0-14) के तहत खेवट/खानी संख्या 31/64-65 किता 4 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में 2 बिस्वा की संपत्ति और उसका 2/219 हिस्सा माप 2 बिस्वा ग्राम हल्लोलापारा एच.बी. नं. 219, युटी चंडीगढ़ में स्थित। श्री नरेश, पुत्र मदन लाल के स्वामित्व में है। इसकी सोमा इस प्रकार है: पूर्व: 48 फीट और मालिक की भूमि, पश्चिम: 48 फीट और मालिक की भूमि, दक्षिण: 18 फीट और मालिक की भूमि, उत्तर: सड़क 18 फीट।	एनपीए की तिथि : 01.09.2022 माँग सूचना की तिथि : 24.05.2024	रु. 32,27,488/- (रुपये बत्तीस लाख सौतीस हजार चार सौ अठ्ठासी मात्र) तिथि 20.05.2024 तक

पुनर्गुणन काल में, 2 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती तथा बंधककर्ता को सम्बन्धित कर्जदार/सह-कर्जदार के विरुद्ध काल में, 6 में प्रदर्शित सम्पूर्ण राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए यह सूचना दी जा रही है क्योंकि कथित राशि काल में, 6 में प्रदर्शित तिथि तक सम्बन्धित ऋण खाते के सम्बन्ध में बकाया पायी गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक देय अन्य राशियों सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड काल में, 4 में वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की उचित कार्यवाही के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन कथित फाइनेंसियल के कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के विरुद्ध कानून के तहत जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपचारों के पुनर्गुणन के लिए है, आप कृपया पुनः ध्यान दें कि कथित अधिनियम को धारा 13(13) के तहत, आपका प्रतिभूत लेनदार को पूर्व अनुमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूति को निस्तारित करने या संयवहार करने अथवा विक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित/निषिद्ध किया जाता है।
तिथि : 29.05.2024 स्थान : हरियाणा एवं चंडीगढ़
ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
सीआईएन: L74110DL1984PLC018467
रजि. ऑफ: 109ए (प्रथम तल), सूर्य किरण बिल्डिंग, 19 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट: www.sabrimala.co.in, ईमेल: cs@sabrimala.co.in, फोन: 011-41514958

31-03-2024 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		वर्तमान तिमाही समाप्ति 31-03-2024		वर्ष से अब तक के आंकड़े/पिछला वर्ष समाप्ति 31-03-2024		वर्तमान तिमाही समाप्ति 31-03-2024		वर्ष से अब तक के आंकड़े/पिछला वर्ष समाप्ति 31-03-2024	
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1	संचालनों से कुल आय	18.39	635.42	120.20	18.39	635.42	120.20	18.39	635.42
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, आयात/निर्यात और/वा असाधारण मद)	6.60	48.28	-11.01	6.00	48.28	-11.01	6.00	48.28
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आयात/निर्यात और/वा असाधारण मद पर ध्यान)	6.60	48.28	-11.01	6.00	48.28	-11.01	6.00	48.28
4	कर पर ध्यान अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आयात/निर्यात और/वा असाधारण मद पर ध्यान)	1.85	32.69	-10.85	1.85	32.69	-10.85	1.85	32.69
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पर ध्यान) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पर ध्यान) शामिल]	1.85	32.69	-10.85	1.85	32.69	-10.85	1.85	32.69
6	इन्विस्टी शेयर पुंजी	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45
7	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का) (जारी और सं. किए गए परिष्कारन हेतु): 1. मुख्यतः 2. तत्समूह	0.02	0.38	-0.12	0.02	0.38	-0.12	0.02	0.38

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त लेखी (लिमिटेड और अन्य प्रकटितकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वाचर वैधता/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत विवरण का संदर्भ है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और www.cse-india.com और सूचीबद्ध इकॉर्ड अर्थात् www.sabrimala.co.in पर उपलब्ध है।
2. इस विवरण की लेखापरीक्षा संगीति द्वारा समीक्षा की गई है और 27.05.2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
उसकी ओर से
सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
सुरेश कुमार मिश्रा
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.05.2024

SRM ENERGY LIMITED
Regd. Office : 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057
CIN: L17100DL1985PLC303047 Tel No. 011-41403205 Website : www.srmenergy.in email : info@srmenergy.in
Extract of Standalone and Consolidated Audited Results for the Quarter and Year ended 31/03/2024 (₹ in lac)

Sl No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter ending (Audited)	Quarter ending (Unaudited)	Year ending (Audited)	Year ending (Unaudited)	Quarter ending (Audited)	Quarter ending (Unaudited)	Year ending (Audited)	Year ending (Unaudited)		
		31/03/2024	31/12/2023	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	31/12/2023	31/03/2024	31/03/2023		
1	Other Income	0.02	-	0.02	-	0.02	0.50	1.60	2.70	4.32	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.14)	(10.10)	(8.55)	(38.61)	(35.77)	(10.78)	(10.57)	(85.87)	(77.36)	(227.42)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.14)	(10.10)	(8.55)	(38.61)	(35.77)	(10.78)	(10.57)	(85.87)	(77.36)	(227.42)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(8.14)	(10.10)	(8.55)	(38.61)	(35.77)	(11.94)	(10.57)	(85.87)	(78.52)	(227.42)
5	Total comprehensive income for the period (Comprehensive Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(8.65)	(10.10)	(8.55)	(39.12)	(35.77)	(12.45)	(10.57)	(85.87)	(79.03)	(227.42)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
7	Other equity			(1,277.99)	(1,238.77)			(5,513.60)	(5,434.43)		
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic 2. Diluted	(0.09) (0.09)	(0.11) (0.11)	(0.09) (0.09)	(0.43) (0.43)	(0.39) (0.39)	(0.13) (0.13)	(0.12) (0.12)	(0.95) (0.95)	(0.87) (0.87)	(2.51) (2.51)

NOTES:
a) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on the stock exchange website www.bseindia.com and on the company website www.srmenergy.in.
b) The above Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2024.

For and On behalf of Board
Sd/-
Sharad Rastogi
Whole Time Director
Din : 09828931

Place: New Delhi
Date: May 28, 2024

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड
CIN : L74899DL1984PLC019218 GSTIN : 07AAAC0149R1ZB
पंजीकृत कार्यालय : एपीएफ हाउस, 4/17-बी, आरफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
फोन : 41520070 फैक्स : 41503479, वेबसाइट : www.indialease.com, ईमेल : info@indialease.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिए				समाप्त वर्ष	
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
		(अंकेक्षित)	(असांकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
1	संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	22.90	13.96	15.20	64.65	57.09	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण आइटम और कर से पूर्व)	(8.23)	(0.06)	(7.34)	(14.02)	(8.48)	
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण आइटम के परभाव पूर्व कर से पूर्व)	(8.23)	(0.06)	(7.34)	(14.02)	(8.48)	
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर के परभाव	(9.53)	(0.06)	(7.34)	(15.32)	(8.48)	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (शामिल अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद)	(8.94)	(0.06)	50.96	(14.73)	49.82	
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02	1470.02	
7	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) जैसा कि पूर्व वित्तीय वर्ष की अंकेक्षित शीट में उद्घृत है।	-	-	-	(367.47)	(352.74)	
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक रु 10/-) (वार्षिक नहीं)	(0.06)	0.00	(0.05)	(0.10)	(0.06)	
9	वैशिक आरक्षित	(0.06)	0.00	(0.05)	(0.10)	(0.06)	

टिप्पणी:
उपरोक्त लेखी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत किए गए अंकेक्षित स्टैंडअलोन तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है। स्टैंडअलोन अंकेक्षित तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.indialease.com पर उपलब्ध है।
निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड
राजीव गुप्ता
चेयरमैन
DIN: 00022964

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2024

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED
CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office : 28, Najafgarh Road, Moli Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015,
Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax : (011) 25928118, 45021982, E-mail Id.: investors@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com,
Branch Office : O.P. Jindal Marg, Hissar - 125005, Haryana

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Sr. No	Particulars	For the quarter ended			For the year ended	
		31st March, 2024	31st December, 2023	31st March, 2023	31st March 2024	31st March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	812.00	1,168.74	670.46	6,575.1	